

कलकत्ता चेंबर का सिबिल चेयरमैन के साथ विशेष सत्र

कोलकाता, 22 नवम्बर (निप्र)। कलकत्ता चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा फाइनेंसिंग में रेटिंग एजेंसियों की भूमिका विषय पर एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में ट्रांसयूनियन सिबिल के चेयरमैन वी. अनंथारमन उनके साथ संवाद में शामिल थे प्रदीप गुप्ता, मैनेजिंग ट्रस्टी, कलकत्ता डिबेटिंग सर्कल एवं वरिष्ठ पत्रकार। इस अवसर पर चेंबर के अध्यक्ष अनंत सहारिया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग झुनझुनवाला तथा उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम अग्रवाल भी उपस्थित रहे। सत्र के दौरान वी. अनंथारमन ने वित्तीय सशक्तिकरण और क्रेडिट स्कोर की अहमियत पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा आज जब हम वित्तीय सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो यह समझना बेहद ज़रूरी है कि सिबिल हमारे आर्थिक भविष्य को आकार देने में कितनी महत्वपूर्ण



भूमिका निभाता है। एक अच्छा सिबिल स्कोर जिम्मेदार क्रेडिट व्यवहार का प्रतीक होता है और यह व्यक्तियों को आसानी से लोन, क्रेडिट कार्ड और बेहतर ब्याज दरें प्राप्त करने में मदद करता है। आज की डिजिटल अर्थव्यवस्था में वित्तीय संस्थाएँ भरोसे और जोखिम का आकलन करने के लिए क्रेडिट स्कोर पर काफी हद तक निर्भर करती हैं। समय पर ईएमआई का भुगतान, कम क्रेडिट उपयोग और डिफॉल्ट से बचना हमारे वित्तीय प्रोफाइल को मजबूत बनाता है। सिबिल के

प्रति जागरूकता और वित्तीय अनुशासन हर उस व्यक्ति के लिए अनिवार्य है जो स्थिरता और विकास की ओर बढ़ना चाहता है। आइए हम जिम्मेदार वित्तीय व्यवहार को बढ़ावा दें और सभी के लिए एक सुरक्षित आर्थिक भविष्य का निर्माण करें। कलकत्ता चेंबर ऑफ कॉमर्स ने इस सत्र को सदस्यों, व्यापारिक समुदाय और एमएसएमई प्रतिनिधियों के लिए अत्यंत उपयोगी बताया, जिससे रेटिंग एजेंसियों और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों की भूमिका को समझने में गहरी अंतर्दृष्टि मिली।